

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

**थाना सिधारी****गैरेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

1. मु0अ0सं0 214/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैरेस्टर एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़ का वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा सा 0 मुंशी का पुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ फरार था। 2. मु0अ0सं0 168/20 धारा 457/380/411/414/34 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ मे वादी चन्द्रपति यादव पुत्र सव बनवारी सा 0 खेमऊपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के घर मे घुसकर सोने व चादी के आभूषण व नगदी चोरी करने के सम्बंध मे।

दिनांक-25.12.2020 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र मय हमराहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त मे भ्रमणशील होकर नयापुल तिराहा पर मौजूद थे कि विश्वास सूत्रो से सूचना मिली की मु0अ0सं0 214/20 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट से संबधित वंछित अभि 0 दिनेश वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा सा 0 मुंशी का पुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ हाईडिल चौराहा पर मौजूद है। तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक हमराह कर्म 0गण को मकसद बताते हुए हाईडिल चौराहा के पास पहुचे तो पुलिस वालो को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे पुलिस द्वारा चारो तरफ से घेर कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम दिनेश वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा सा 0 मुंशी का पुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ बताया। गिरफ्तारी/उक्त मुकदमे का वांछित होने का बताते हुए समय करीब 07.00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

**थाना- बरदह****तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 24.12.2020 को उ0नि0 शमशाद अली मय हमराह देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग बैंक व शान्ति व्यवस्था डियूटी रोकथाम जुर्म ,पेण्डिंग विवेचना तलाश वांछित अपराधी संदिग्ध व्यक्ति मे मामूर होकर ग्राम रहमतगंज पहुचकर सभी कर्म0गण से अपराध रोक थाम के विषय मे बात कर रहे थे कि मुखबीर खास आकर बताया कि बीकापुर से बक्सपुर की तरफ एक व्यक्ति आ रहा है उसके पास नाजायज असलहा व कारतूस है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर मुखबीर को वही छोड कर सरकारी जीप से आगे बढे की बक्सपुर चौराहे से 10 कदम पहले युनियन बैंक की तरफ किनारे बाई तरफ गाडी खडी कर के इन्तजार करने लगे कुछ देर बाद बीकापुर की तरफ से एक व्यक्ति पहुचा तो पुलिस टीम द्वारा घेरघार कर बीकापुर चौराहे से समय करीब 22.35 बजे पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम शाहनवाज पुत्र सदरे आलम ग्राम बन्जारेपुर थाना गौराबादशहपुर जनपद जौनपुर उम्र-27 वर्ष बताया तथा पूछ ताछ व जामा तलाशी ली गई तो एक अदद तमंचा 12 बोर , 03 अदद जिन्दा 12 बोर कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 0316/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

**थाना तरवां****01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/ की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में व प्रभारी निरीक्षक तरवां के निर्देशन मे उ0नि0 रमेश कुमार पाण्डेय मय हमराह के साथ थाना हाजा से प्रस्थान कर मु0अ0सं0 196/2020 धारा 354 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त शमसुद्दीन नाई पुत्र असलम नाई सा0 टाण्डाडीह थाना तरवां आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष जो अपने घर पर मौजूद मिला जिसको कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 12.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।